



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22]

नई दिल्ली, मई 23—मई 29, 2010, शनिवार/ज्येष्ठ 2—ज्येष्ठ 8, 1932

No. 22]

NEW DELHI, MAY 23—MAY 29, 2010, SATURDAY/JYAISTHA 2—JYAISTHA 8, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई, 12 मई, 2010

सा.का.नि. 93.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग सहायक सुरक्षा अधिकारी (क) भर्ती नियम, 2009 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग सहायक सुरक्षा अधिकारी (क) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परमाणु ऊर्जा विभाग, सहायक सुरक्षा अधिकारी (क) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में स्तंभ (7) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

निर्णायक तारीख तक 27 वर्ष।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय)।

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

टिप्पण 2 : रोजगार केन्द्रों के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वही होगी जिस तारीख तक रोजगार केन्द्रों से नाम मांगे गये हैं।

टिप्पण 3 : भूतपूर्व सैनिक एवं भूतपूर्व कांस्टेबल, सशस्त्र बलों या पुलिस से कार्यमुक्त या सेवा निवृत्त होने के केवल तीन वर्षों के भीतर आवेदन करने के पात्र होंगे।

[फा. सं. 20/1(2)/2008-सीसीएस/359]

के. अब्राहम, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 16 अप्रैल, 2009 में सा.का.नि. सं. 56 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai, the 12th May, 2010

G.S.R. 93.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Atomic Energy Assistant Security Officer (A) Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy Assistant Security Officer (A) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Atomic Energy Assistant Security Officer (A) Recruitment Rules, 2009, for the entries under column (7), the following entries shall be substituted, namely :—

Upto 27 years as on crucial date.

(Relaxable for Government Servants upto 35 years, in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government).

Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India.

Note 2 : In case of appointment is made through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Note 3 : Ex-servicemen and ex-Constables shall be eligible to apply only within three years of discharge or retirement from Armed Forces or Police.

[F.No. 20/1(2)/2008-CCS/359]

K. ABRAHAM, Director

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 56 dated the 16th April, 2009.

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मई, 2010

सा.का.नि. 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में विधि अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जनजातीय आयोग (विधि अधिकारी) भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और अन्य वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विधि अधिकारी	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित,	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)			(9)			(10)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता			लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p>प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/किसी मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/लोक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी/कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी—</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग के वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर उनकी निवृत्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और</p>

(12)

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं—

आवश्यक अर्हताएं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समतुल्य सहित भारत की बार काउंसिल/राज्य बार काउंसिल के वैध पंजीकरण के साथ विधि में स्नातक;

(ii) विधिक प्रारूपण और विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष शपथपत्र/प्रत्युत्तर फाइल करने/विधिक सलाह प्रदान करने में दो वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन मामलों के विषयों में अनुभव ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 42011/4/2009-स्था.]

ए. के. साहा, अवर सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 17th May, 2010

G.S.R. 94.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Law Officer in the National Commission for Scheduled Tribes, namely :—**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes (Law Officer) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.**3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications**—The method of recruitment, age-limit, qualification and matters connected thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.**4. Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Law Officer	1* *(2010) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted,	PB-2 of Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation if any	
(8)			(9)		(10)	
Not applicable			Not applicable		Not applicable	
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and number of the vacancies to be filled by various methods				In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made		
(11)				(12)		
By Deputation (Including short term contract)				Deputation (Including short term contract) Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi Government/ Statutory or Autonomous Organizations :— (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 in the parent Cadre/Department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience : Essential Qualifications : (i) Graduation in Law from a recognized University/Institute or equivalent with valid registration with the Bar Council of India/State Bar Council. (ii) 2 years experience in legal drafting and filing affidavits/ replies before various judicial forums/tendering legal advice.		

(12)

Desirable :

(i) Experience in dealing with cases under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and the Protection of Civil Rights Act, 1955.

(Period of deputation (Including short term contract) including the period of deputation (Including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists
what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is
to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary
on each occasion.

[F.No.-42011/4/2009-Estt.]

A. K. SAHA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 2010

सा.का.नि. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग (पशुपालन आयुक्त) भर्ती नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (पशुपालन आयुक्त) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पशुपालन और डेयरी विभाग (पशुपालन आयुक्त) भर्ती नियम, 1997 की अनुसूची में—

- (i) स्तंभ 4 में, शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :-

“वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान”

4

उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (67000 रूपए-वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर से - 79000 रूपए)

- (ii) स्तंभ 12 में पैराग्राफ (क) के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(क)(1) नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किया हुआ है; या

(2) 10,000 रूपए के ग्रेड वेतन वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा; या

(3) 8900 रूपए के ग्रेड वेतन वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा।”

[फा. सं. ए-12018/1/2009-प्रशासन-1]

सुभाष चन्द खत्री, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम 26 मार्च, 1997 के सा.का.नि. सं. 183 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)**

New Delhi, the 25th May, 2010

G.S.R. 95.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Animal Husbandry and Dairying (Animal Husbandry Commissioner) Recruitment Rules, 1997, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (Animal Husbandry Commissioner) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Department of Animal Husbandry and Dairying (Animal Husbandry Commissioner) Recruitment Rules, 1997, —

- (i) in column 4, for the heading and entries thereunder the following shall be substituted, namely :—

“Pay Band and Grade Pay/Pay Scale”

4

HAG (Rs.67000-annual increment @ 3% - 79000)

- (ii) in column No. 12, for paragraph (a), the following paragraph shall be substituted, namely:—
- “(a) (i) holding analogous post on regular basis; or
- (ii) with three years’ regular service in the post with Grade Pay of Rs. 10,000; or
- (iii) with five years’ regular service in the post with Grade Pay of Rs. 8900.”

[F. No. A-12018/1/2009-Admn. I]

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

Note : The Principal rules were published vide GSR No.183 dated the 26th March, 1997.